

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 16/398**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1575	3.67	54.09	12.59	0.2499
2	1562	4.54	69.14	11.67	0.3664
3	1592	4.44	62.09	12.30	0.3392
4	1595	3.64	61.50	11.59	0.2595
5	1551	4.03	51.97	11.68	0.2446
6	1578	4.29	65.82	13.20	0.3728
7	1589	4.19	48.88	13.50	0.2765
8	1553	3.73	63.86	12.10	0.2883
9	1556	3.74	60.27	12.20	0.2749
10	1582	7.19	67.91	12.56	0.6133
11	1564	4.36	67.76	13.25	0.3915
12	1599	3.76	60.22	12.06	0.2730
13	1509	4.26	67.62	12.29	0.3540
14	1516	7.24	49.25	14.17	0.5054
15	1511	4.05	65.50	11.22	0.2977
16	1565	4.46	67.41	13.45	0.4045
17	1508	6.62	65.03	13.64	0.5872
18	1547	4.42	61.71	14.21	0.3876
19	1574	4.57	50.37	13.50	0.3108
20	1559	4.64	56.39	13.85	0.3624
21	1527	3.58	60.83	13.92	0.3032
22	1579	4.47	65.42	12.12	0.3545
23	1538	4.06	68.28	12.11	0.3358
24	1531	4.17	61.15	13.34	0.3403
25	1572	4.38	67.81	12.25	0.3640
26	1587	4.26	59.42	12.37	0.3131
27	1525	3.81	58.28	12.08	0.2682
28	1542	4.16	71.76	13.71	0.4093
29	1594	7.22	63.40	11.83	0.5415
30	1583	4.25	66.19	10.50	0.2954
31	1536	4.4	66.95	12.56	0.3700
32	1505	4.14	60.32	13.86	0.3461
33	1532	4.19	62.33	14.38	0.3754
34	1573	4.47	64.03	13.28	0.3799
35	1524	4.1	45.80	15.15	0.2845
36	1585	4.32	70.73	13.02	0.3979
37	1526	4.21	56.49	13.88	0.3301
38	1501	8.56	66.98	14.11	0.8089
39	1590	4.28	52.41	14.21	0.3189
40	1537	4.31	57.05	15.35	0.3776
41	1577	4.28	60.71	14.25	0.3702
42	1506	8.39	55.73	16.10	0.7526

43	1597	7.21	53.20	14.55	0.5581
44	1519	3.94	46.53	15.30	0.2805
45	1584	7.07	61.11	12.53	0.5416
46	1504	4.27	55.85	14.15	0.3373
47	1598	7.31	53.09	13.49	0.5234
48	1540	4.57	64.95	11.27	0.3345
49	1560	3.51	63.10	13.33	0.2952
50	1593	4.37	54.83	13.48	0.3229
51	1533	6.36	68.01	14.13	0.6112
52	1552	4.94	66.98	10.81	0.3577
53	1580	4.07	65.11	12.46	0.3301
54	1518	4.23	46.93	13.72	0.2724
55	1535	4.33	63.00	14.43	0.3936
56	1521	6.98	59.32	12.10	0.5012
57	1563	3.76	62.63	13.67	0.3219
58	1520	7.35	65.46	11.56	0.5564
59	1503	4.15	58.09	12.05	0.2905
60	1586	4.25	52.63	12.98	0.2903
61	1554	3.63	58.14	15.03	0.3173
62	1507	4.22	61.29	12.35	0.3195
63	1522	4.28	60.11	12.61	0.3244
64	1550	3.96	61.05	14.73	0.3560
65	1545	4.2	51.87	14.59	0.3179
66	1570	3.86	62.92	13.13	0.3188
67	1576	7.08	49.73	14.58	0.5133
68	1591	4.44	55.33	13.36	0.3281
69	1567	4.44	60.44	15.06	0.4040
70	1596	4.2	58.22	11.77	0.2877
71	1558	3.58	57.48	14.04	0.2889
72	1534	4.11	58.20	14.98	0.3584
73	1512	6.13	63.66	14.47	0.5646
74	1571	4.48	56.04	16.01	0.4019
75	1548	6.95	58.06	14.73	0.5942
76	1549	7.19	51.33	15.06	0.5558
77	1568	4.43	61.67	13.59	0.3712
78	1513	4.57	44.20	12.17	0.2459
79	1515	4.49	45.76	15.87	0.3260
80	1546	4.18	49.55	15.74	0.3260
81	1517	4.6	59.16	12.61	0.3432
82	1561	3.68	71.97	12.46	0.3301
83	1581	4.3	60.86	12.36	0.3234
84	1541	7.32	67.59	12.98	0.6420
85	1514	4.36	53.75	14.03	0.3287
86	1555	4.15	57.79	15.28	0.3664
87	1502	4.14	60.58	11.59	0.2906
88	1600	8.66	60.35	13.52	0.7067
89	1528	4.29	65.65	14.68	0.4136

90	1543	4.22	68.37	11.06	0.3190
91	1566	3.87	64.55	11.98	0.2992
92	1569	4.46	67.48	14.09	0.4241
93	1557	3.66	61.99	13.16	0.2987
94	1529	6.26	55.96	13.88	0.4864
95	1523	3.77	72.55	11.88	0.3250
96	1544	3.61	67.83	13.31	0.3260
97	1510	4.16	62.53	12.07	0.3141
98	1530	4.24	61.55	13.94	0.3638
99	1588	4.52	54.18	10.56	0.2585
100	1539	4.18	64.48	12.52	0.3373

Date: 31.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 14/359**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1357	6.86	58.46	13.91	0.5577
2	1363	3.82	60.42	13.29	0.3067
3	1391	3.2	63.46	14.53	0.2950
4	1359	3.98	51.48	15.56	0.3188
5	1352	3.62	49.84	14.73	0.2657
6	1343	4.29	64.21	13.81	0.3805
7	1382	6.86	62.73	14.76	0.6352
8	1362	4.16	47.27	15.55	0.3058
9	1306	4.33	65.23	14.49	0.4092
10	1314	4	60.63	13.01	0.3156
11	1326	4.2	59.87	13.63	0.3427
12	1390	4.1	69.52	12.38	0.3530
13	1302	8.09	66.11	11.68	0.6245
14	1348	4.29	69.35	13.55	0.4033
15	1394	3.81	65.42	10.87	0.2709
16	1392	8.15	73.22	12.03	0.7180
17	1332	4.12	71.50	11.31	0.3333
18	1334	4.15	69.51	12.24	0.3532
19	1310	3.48	70.06	12.30	0.3000
20	1323	4.06	63.08	10.21	0.2615
21	1311	6.78	76.23	12.49	0.6455
22	1397	3.8	62.89	11.00	0.2630
23	1331	3.77	65.07	11.88	0.2914
24	1376	3.94	66.36	12.94	0.3384
25	1354	3.9	60.01	12.05	0.2820
26	1353	3.81	66.38	11.80	0.2983
27	1317	3.9	61.95	11.54	0.2789
28	1396	8.03	68.09	11.95	0.6536
29	1387	4.02	63.60	12.37	0.3164
30	1328	4.06	70.44	11.13	0.3183
31	1333	4.31	63.99	11.99	0.3306
32	1358	4.1	55.01	12.25	0.2763
33	1307	3.79	72.86	9.95	0.2748
34	1337	4	66.60	11.65	0.3104
35	1338	3.99	66.04	12.24	0.3224
36	1316	4.27	64.28	12.59	0.3454
37	1393	3.39	72.08	11.74	0.2868
38	1381	6.88	62.52	10.78	0.4637
39	1329	3.9	62.62	12.18	0.2976
40	1330	4.21	65.95	12.43	0.3452
41	1400	1.89	62.15	12.79	0.1503
42	1322	4.26	61.07	13.15	0.3421

43	1325	4.32	67.75	11.70	0.3426
44	1347	4.19	76.50	12.42	0.3981
45	1324	4.17	69.59	13.69	0.3974
46	1388	4.31	69.99	11.97	0.3612
47	1303	6.92	64.29	12.37	0.5501
48	1364	3.87	56.92	12.81	0.2821
49	1398	4.25	63.35	11.35	0.3056
50	1318	4.13	57.96	12.91	0.3089
51	1360	6.21	67.46	11.40	0.4775
52	1335	4.21	69.70	11.69	0.3431
53	1374	6.79	60.35	11.98	0.4909
54	1383	4.08	63.07	11.51	0.2962
55	1361	5.99	67.35	12.09	0.4876
56	1336	3.69	68.72	12.46	0.3159
57	1389	7.06	63.28	10.70	0.4780
58	1345	3.43	70.85	11.21	0.2723
59	1373	6.84	65.37	11.17	0.4993
60	1305	6.79	68.56	12.65	0.5887
61	1384	6.81	62.06	13.00	0.5496
62	1366	6.76	52.68	15.32	0.5455
63	1377	3.03	55.13	13.30	0.2221
64	1399	3.2	52.64	14.93	0.2515
65	1380	8.27	59.54	15.77	0.7766
66	1385	6.14	57.67	13.96	0.4943
67	1379	8.04	64.79	15.34	0.7992
68	1342	4.2	57.36	14.78	0.3562
69	1346	3.97	68.83	14.75	0.4030
70	1372	4.13	63.42	13.15	0.3444
71	1319	2.52	58.33	13.99	0.2056
72	1351	4.27	41.54	16.95	0.3006
73	1308	8.26	63.84	13.69	0.7219
74	1350	2.71	39.86	16.16	0.1745
75	1339	3.86	63.50	13.46	0.3300
76	1378	7.12	65.32	12.54	0.5831
77	1301	7.34	66.92	14.73	0.7237
78	1344	3.55	56.12	14.45	0.2879
79	1365	3.95	54.50	13.94	0.3002
80	1375	6.58	58.44	14.54	0.5593
81	1355	3.93	53.27	12.41	0.2598
82	1367	4.07	62.76	13.00	0.3321
83	1309	4.01	67.25	12.77	0.3445
84	1341	4.06	71.86	12.65	0.3691
85	1395	3.89	63.38	12.51	0.3085
86	1371	4.01	60.54	13.66	0.3316
87	1313	3.54	74.85	14.47	0.3834
88	1356	4.33	58.91	12.46	0.3178
89	1369	7.21	68.86	14.32	0.7109

90	1386	3.74	69.03	12.57	0.3246
91	1321	6.45	64.57	11.17	0.4650
92	1340	6.88	67.91	11.41	0.5332
93	1315	4.49	68.43	11.31	0.3475
94	1349	4.07	73.59	13.26	0.3972
95	1368	4.19	64.29	13.38	0.3603
96	1327	6.91	66.23	12.92	0.5915
97	1312	8.82	76.30	12.63	0.8502
98	1304	6.6	70.25	12.37	0.5735
99	1320	3.45	59.36	10.83	0.2218
100	1370	6.9	64.08	11.19	0.4947

Date: 30.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 15/397**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1432	4.19	59.56	12.24	0.3055
2	1435	7.03	66.57	12.06	0.5645
3	1487	4.02	45.49	12.49	0.2283
4	1498	8.51	67.06	12.56	0.7165
5	1493	4.3	64.99	12.39	0.3462
6	1499	3.47	65.39	13.12	0.2977
7	1465	4.36	57.03	12.36	0.3074
8	1461	7.88	60.11	10.55	0.4996
9	1402	4.39	65.56	13.30	0.3828
10	1492	3.97	59.55	12.02	0.2843
11	1449	4.1	62.05	11.94	0.3038
12	1456	3.73	52.49	15.91	0.3115
13	1413	7.03	64.95	15.07	0.6882
14	1475	4.44	55.33	13.68	0.3361
15	1500	7.13	63.92	14.61	0.6659
16	1457	7.01	55.23	14.61	0.5657
17	1447	3.44	64.76	14.18	0.3158
18	1437	4.1	56.17	14.38	0.3313
19	1429	7.01	65.97	12.08	0.5587
20	1401	4.02	67.20	13.33	0.3602
21	1417	4.18	70.63	11.02	0.3252
22	1423	3.96	67.16	15.10	0.4015
23	1407	3.41	66.23	14.33	0.3236
24	1489	4.16	62.62	10.84	0.2825
25	1450	4.2	68.21	13.80	0.3952
26	1454	7.09	54.81	11.82	0.4594
27	1495	4.3	68.95	12.60	0.3737
28	1455	4.06	57.76	14.08	0.3301
29	1453	4.25	48.97	10.99	0.2287
30	1406	6.9	69.05	12.90	0.6148
31	1410	4.34	68.93	11.94	0.3572
32	1479	4.31	60.27	11.86	0.3082
33	1428	6.32	70.46	11.98	0.5334
34	1464	4.43	47.30	13.59	0.2848
35	1491	4.39	59.84	10.91	0.2867
36	1411	4.2	66.69	10.47	0.2932
37	1430	3.71	70.81	12.15	0.3191
38	1478	4.26	57.55	11.23	0.2752
39	1424	4.18	66.77	11.74	0.3277
40	1419	4.28	67.88	12.54	0.3642
41	1412	4.19	58.72	14.19	0.3490
42	1466	4.36	54.01	12.89	0.3035

43	1444	4.21	59.94	13.56	0.3423
44	1405	4.09	63.80	14.40	0.3759
45	1496	4.27	60.81	13.99	0.3634
46	1441	4.05	50.66	14.67	0.3009
47	1439	4.02	56.12	15.22	0.3433
48	1438	4.04	59.06	13.26	0.3163
49	1451	4.32	51.90	13.55	0.3037
50	1443	7.18	56.92	13.63	0.5572
51	1431	4.47	62.79	12.84	0.3603
52	1458	4.3	66.56	11.12	0.3182
53	1409	4.14	60.32	11.92	0.2977
54	1459	3.8	63.18	11.92	0.2861
55	1425	7.03	67.96	13.39	0.6397
56	1483	3.54	54.91	12.73	0.2474
57	1436	4.21	64.34	11.27	0.3052
58	1472	4.25	65.04	11.64	0.3217
59	1494	4.28	59.22	13.39	0.3394
60	1469	4.47	63.69	11.46	0.3263
61	1471	4.67	53.92	13.32	0.3353
62	1490	4.37	49.94	11.95	0.2609
63	1442	4.24	58.79	14.42	0.3596
64	1463	4.44	52.77	14.61	0.3423
65	1468	7.56	44.89	14.77	0.5012
66	1462	7.29	47.45	14.44	0.4994
67	1440	4.2	54.39	15.33	0.3503
68	1416	4.16	68.32	14.84	0.4218
69	1480	4.26	42.73	15.00	0.2731
70	1422	3.74	62.75	13.13	0.3082
71	1427	3.93	76.04	12.65	0.3781
72	1484	3.5	63.04	12.45	0.2747
73	1477	4.61	44.21	11.67	0.2379
74	1408	3.41	64.73	11.03	0.2435
75	1476	4.41	68.62	13.26	0.4013
76	1485	3.46	66.40	12.33	0.2834
77	1486	4.11	58.53	12.68	0.3050
78	1433	4.7	60.78	12.72	0.3633
79	1420	3.76	66.76	12.24	0.3072
80	1460	3.94	52.73	10.15	0.2108
81	1473	4.47	65.87	12.57	0.3701
82	1404	3.78	68.24	13.09	0.3376
83	1497	4.32	73.01	11.20	0.3534
84	1418	4.27	68.80	12.57	0.3694
85	1482	3.67	64.72	12.38	0.2940
86	1426	3.47	71.37	11.57	0.2866
87	1403	4.06	68.28	12.52	0.3471
88	1452	8.46	67.72	7.01	0.4019
89	1446	3.68	65.63	10.96	0.2646

90	1470	6.63	61.57	12.64	0.5158
91	1415	4.02	56.33	11.73	0.2657
92	1445	4.25	65.47	12.88	0.3583
93	1434	7.24	58.36	12.35	0.5220
94	1421	3.93	53.24	13.43	0.2810
95	1467	4.31	49.73	14.46	0.3099
96	1448	4.34	63.49	13.03	0.3589
97	1474	4.43	52.86	13.85	0.3243
98	1414	4.13	65.65	14.91	0.4043
99	1488	4.34	46.71	15.46	0.3133
100	1481	3.82	61.35	13.33	0.3125

Date: 29.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 10/292**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	924	3.57	51.34	13.44	0.2463
2	979	3.74	52.43	12.87	0.2525
3	959	4.33	65.15	13.20	0.3724
4	923	8.97	64.26	13.27	0.7651
5	930	7.48	56.25	13.07	0.5498
6	964	3.58	58.11	12.92	0.2689
7	946	4.3	54.94	14.07	0.3324
8	906	3.84	62.29	11.98	0.2865
9	940	4.09	41.23	13.68	0.2307
10	941	7.25	54.18	12.96	0.5090
11	981	7.18	63.24	11.95	0.5428
12	905	4.03	68.66	14.68	0.4062
13	974	8.29	66.21	15.39	0.8448
14	996	3.85	74.25	12.53	0.3580
15	945	8.43	57.13	11.62	0.5598
16	943	6.92	57.37	12.08	0.4796
17	920	7.04	58.26	12.74	0.5224
18	929	8.77	59.79	13.06	0.6849
19	991	6.97	69.04	12.75	0.6134
20	926	7.38	60.52	12.34	0.5513
21	953	4.27	62.97	10.89	0.2929
22	963	6.77	69.67	12.09	0.5700
23	954	6.94	55.77	12.68	0.4907
24	913	3.76	66.99	13.11	0.3301
25	932	3.9	61.68	12.97	0.3120
26	922	4.02	59.11	14.14	0.3361
27	994	3.81	62.07	12.79	0.3025
28	919	7.19	46.32	14.66	0.4882
29	903	3.37	60.69	13.96	0.2854
30	999	4.27	53.40	13.41	0.3057
31	938	4.34	61.38	11.84	0.3155
32	916	3.89	62.15	13.56	0.3279
33	939	3.62	59.65	12.25	0.2646
34	927	7.06	56.80	14.10	0.5655
35	993	4	70.61	14.53	0.4104
36	950	7.31	57.24	13.33	0.5578
37	998	3.88	67.22	12.51	0.3263
38	917	3.75	72.45	12.88	0.3499
39	983	4.24	62.14	12.36	0.3256
40	961	4.21	57.53	12.27	0.2972
41	985	3.95	70.41	11.55	0.3211
42	965	4.32	63.62	12.43	0.3417

43	967	4.05	57.59	13.25	0.3090
44	928	4.22	55.88	12.83	0.3026
45	935	7.31	61.21	12.91	0.5775
46	973	4.27	65.14	11.28	0.3138
47	992	4.06	73.91	12.20	0.3662
48	931	4.15	59.63	13.99	0.3461
49	951	4.3	57.14	13.18	0.3238
50	970	7.05	54.72	12.04	0.4646
51	957	4.56	67.36	13.81	0.4241
52	976	6.88	59.39	9.56	0.3908
53	1000	3.9	66.62	11.12	0.2890
54	960	4.19	67.64	13.19	0.3737
55	990	4.02	66.03	11.49	0.3051
56	934	7.18	53.77	10.97	0.4236
57	901	4.19	63.48	12.37	0.3289
58	912	6.9	67.65	13.84	0.6458
59	997	4.15	68.31	13.12	0.3718
60	987	8.24	73.20	11.54	0.6963
61	908	6.86	66.95	12.85	0.5900
62	949	4.45	63.04	12.29	0.3449
63	952	4.09	57.11	11.10	0.2593
64	914	3.98	64.31	12.32	0.3152
65	980	3.98	70.62	11.68	0.3284
66	982	3.96	64.39	12.63	0.3219
67	936	7.64	58.90	13.67	0.6150
68	971	3.9	50.75	11.76	0.2328
69	958	6.78	59.17	12.81	0.5139
70	972	3.51	57.63	13.29	0.2689
71	978	7.09	64.07	13.03	0.5920
72	955	7.12	59.14	14.49	0.6102
73	975	3.98	60.45	12.89	0.3100
74	977	4.07	62.90	13.75	0.3521
75	921	7.27	61.67	13.39	0.6005
76	968	4.26	66.84	11.54	0.3284
77	962	4.27	60.47	11.39	0.2942
78	956	7.2	59.59	11.73	0.5033
79	969	4.22	72.65	12.47	0.3823
80	944	4.01	56.46	12.26	0.2775
81	986	6.46	71.78	12.64	0.5859
82	904	4.17	70.89	13.29	0.3928
83	915	3.88	65.90	12.02	0.3073
84	989	4.2	71.69	12.34	0.3717
85	948	4.23	57.82	11.45	0.2800
86	988	3.93	64.21	13.83	0.3490
87	947	7.01	52.68	14.75	0.5447
88	984	7.17	66.96	11.71	0.5621
89	918	3.65	50.17	11.68	0.2139

90	907	4.27	53.85	14.63	0.3365
91	995	6.85	60.88	13.27	0.5535
92	933	4.46	55.69	13.34	0.3314
93	902	7	57.30	12.93	0.5187
94	966	6.81	58.72	15.40	0.6156
95	910	6.78	62.60	14.42	0.6122
96	937	3.63	58.22	14.84	0.3136
97	942	4.29	43.67	13.74	0.2574
98	911	4.02	61.03	13.86	0.3401
99	909	6.58	54.77	14.30	0.5152
100	925	7.4	53.88	14.14	0.5639

Name of Division : Jaora-I

Challan No. : 13/358

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1289	4	63.12	13.74	0.3468
2	1212	3.62	71.95	13.48	0.3511
3	1250	4.34	58.59	13.07	0.3324
4	1240	4.18	57.15	13.04	0.3114
5	1210	7.27	65.49	13.93	0.6630
6	1216	4.35	70.58	11.79	0.3619
7	1228	7.2	66.50	12.68	0.6070
8	1222	4.2	66.15	13.50	0.3751
9	1272	4.15	66.47	10.86	0.2996
10	1203	4.19	57.53	13.05	0.3147
11	1244	4.32	66.05	13.26	0.3784
12	1292	3.54	68.41	12.92	0.3129
13	1293	6.69	67.26	12.28	0.5526
14	1287	6.47	66.92	12.85	0.5564
15	1230	4.32	76.96	13.45	0.4471
16	1233	8.45	72.05	12.30	0.7487
17	1211	4.27	68.82	12.82	0.3766
18	1283	5.75	63.05	11.07	0.4013
19	1231	6.97	70.63	11.34	0.5583
20	1256	4.35	68.06	11.56	0.3423
21	1274	7.17	71.09	11.04	0.5628
22	1282	4.01	61.14	12.74	0.3124
23	1253	4.25	67.70	13.29	0.3825
24	1202	4.47	55.83	11.95	0.2981
25	1269	4.34	66.00	11.09	0.3177
26	1236	4.16	54.16	13.42	0.3024
27	1247	3.76	52.02	12.28	0.2403
28	1261	7.06	62.18	12.32	0.5408
29	1237	7.11	54.70	12.85	0.4998
30	1223	8.44	66.92	14.00	0.7908
31	1248	4.26	57.62	12.48	0.3063
32	1255	4.45	66.69	11.85	0.3515
33	1217	4.36	71.26	12.26	0.3811

34	1273	7.16	69.21	12.71	0.6301
35	1300	3.68	70.05	12.41	0.3198
36	1221	7.28	73.65	13.51	0.7244
37	1278	4.25	60.96	13.47	0.3489
38	1254	3.74	63.88	13.87	0.3314
39	1268	4.31	68.61	14.50	0.4288
40	1280	4.16	52.42	13.54	0.2954
41	1226	7.21	69.76	12.76	0.6417
42	1266	7.13	69.02	12.30	0.6053
43	1245	4.12	62.35	12.48	0.3205
44	1296	6.68	65.64	11.97	0.5250
45	1225	4.3	72.60	11.98	0.3741
46	1249	4.46	59.72	10.98	0.2926
47	1275	4.12	60.13	12.54	0.3106
48	1299	8.35	69.76	12.23	0.7123
49	1204	4.5	58.70	10.46	0.2763
50	1246	3.47	59.77	12.58	0.2609
51	1229	4.25	72.84	12.12	0.3753
52	1290	3.87	67.82	13.01	0.3413
53	1219	4.24	70.92	12.55	0.3774
54	1201	4.51	57.88	11.92	0.3112
55	1220	4.16	68.98	11.18	0.3207
56	1277	4.04	57.71	10.97	0.2557
57	1235	4.1	55.89	13.47	0.3087
58	1267	4.49	64.31	13.00	0.3754
59	1259	4.44	70.99	11.68	0.3681
60	1214	7.27	69.27	12.30	0.6194
61	1232	4.42	76.62	12.42	0.4208
62	1205	7.12	62.73	11.35	0.5069
63	1271	7.32	67.19	11.03	0.5424
64	1257	7.12	69.07	13.10	0.6444
65	1218	7.42	72.93	11.70	0.6329
66	1288	4.26	57.72	14.22	0.3497
67	1284	3.61	50.69	13.93	0.2549
68	1206	4.48	57.13	12.69	0.3248
69	1291	4.05	57.86	13.26	0.3106
70	1276	2.31	57.19	13.43	0.1774
71	1209	3.62	58.73	12.79	0.2719
72	1207	4.64	60.00	13.15	0.3661
73	1285	3.24	60.81	12.83	0.2527
74	1260	4.36	63.57	12.76	0.3536
75	1265	4.32	65.25	13.55	0.3819
76	1227	7.24	67.35	12.59	0.6140
77	1241	4.25	65.54	13.14	0.3659
78	1281	3.9	62.05	12.47	0.3019
79	1298	6.22	68.63	11.28	0.4814
80	1294	6.73	67.10	13.01	0.5875

81	1215	7.05	70.12	12.98	0.6416
82	1251	7.51	61.41	13.03	0.6008
83	1243	7.05	62.38	13.56	0.5964
84	1213	3.69	69.09	11.83	0.3015
85	1224	4.44	71.17	12.07	0.3814
86	1234	7.45	71.43	13.75	0.7316
87	1252	4.37	67.82	13.39	0.3968
88	1258	4.2	60.64	14.40	0.3667
89	1297	6.87	57.46	14.58	0.5757
90	1279	4.07	51.50	15.53	0.3256
91	1238	4.02	50.07	15.96	0.3212
92	1264	7.21	59.50	13.65	0.5855
93	1263	7.22	63.98	13.02	0.6014
94	1286	7.82	59.68	15.58	0.7273
95	1242	4.41	50.24	14.59	0.3233
96	1208	6.93	55.16	14.56	0.5565
97	1239	4.39	59.43	14.91	0.3890
98	1270	3.67	65.43	14.20	0.3409
99	1262	8.45	63.09	13.09	0.6980
100	1295	4.12	59.65	14.37	0.3531

Date: 17.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 07/230**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	659	8.51	59.54	13.27	0.6723
2	621	7.99	54.64	13.58	0.5929
3	615	3.52	53.40	13.30	0.2499
4	653	7.04	51.85	13.69	0.4998
5	667	8.39	51.33	13.91	0.5990
6	661	6.83	55.77	12.61	0.4801
7	669	4.22	57.96	12.65	0.3093
8	645	4.31	69.85	10.72	0.3228
9	671	4.1	64.70	11.16	0.2960
10	623	3.6	60.79	13.70	0.2999
11	606	3.86	60.87	13.22	0.3107
12	677	3.9	60.96	13.19	0.3136
13	629	6.2	58.89	13.50	0.4929
14	675	4.21	60.46	12.26	0.3120
15	673	3.43	63.33	9.68	0.2103
16	656	7.23	60.34	12.68	0.5531
17	679	4.18	66.74	12.35	0.3444
18	620	3.79	62.42	13.68	0.3237
19	697	6.77	65.68	12.27	0.5457
20	648	4.29	76.00	11.24	0.3664
21	687	7.01	59.77	11.28	0.4725
22	631	3.43	70.80	12.08	0.2933
23	626	7.33	62.33	11.57	0.5285
24	651	6.92	56.28	10.68	0.4159
25	682	7.22	56.75	13.22	0.5415
26	674	4.16	58.31	10.07	0.2442
27	689	6.44	62.70	10.80	0.4360
28	612	7.02	50.80	10.63	0.3791
29	644	6.94	70.27	10.96	0.5344
30	614	4.18	62.09	12.32	0.3198
31	635	8.27	63.92	14.11	0.7460
32	641	7	64.43	13.36	0.6027
33	616	4.09	54.97	13.04	0.2933
34	624	7.28	64.57	14.57	0.6850
35	684	7.08	56.10	12.96	0.5147
36	660	4.09	61.74	13.23	0.3342
37	602	3.32	55.89	14.65	0.2719
38	672	6.69	61.90	12.76	0.5285
39	613	7.45	45.80	14.28	0.4872
40	604	4.11	67.65	13.24	0.3683
41	607	8.43	60.24	13.00	0.6601
42	640	6.96	66.26	12.12	0.5589

43	601	6.64	54.61	12.78	0.4635
44	670	6.84	61.42	13.04	0.5479
45	688	3	52.40	12.48	0.1962
46	685	6.89	57.50	12.47	0.4940
47	693	4.22	63.85	12.65	0.3410
48	625	4.16	56.46	14.08	0.3307
49	681	3.63	46.30	15.68	0.2635
50	647	8.51	73.64	14.22	0.8910
51	642	8.47	64.01	13.40	0.7267
52	632	7.26	61.13	12.55	0.5568
53	618	7.45	54.31	14.51	0.5871
54	628	6.65	54.56	13.75	0.4988
55	658	6.84	46.75	12.47	0.3988
56	680	4.13	58.85	11.30	0.2746
57	692	4.21	56.39	14.10	0.3347
58	639	6.96	59.76	11.70	0.4865
59	696	4.21	56.81	12.71	0.3040
60	657	6.81	62.53	14.49	0.6170
61	633	6.92	65.26	12.95	0.5847
62	619	4.03	57.29	13.49	0.3115
63	694	4.16	48.17	13.60	0.2725
64	608	4.04	63.15	12.98	0.3313
65	650	7.55	42.50	13.93	0.4470
66	634	4.32	61.94	12.63	0.3378
67	695	6.75	62.57	13.23	0.5589
68	699	6.99	63.71	11.66	0.5194
69	627	6.95	61.59	11.30	0.4837
70	662	3.95	51.06	13.32	0.2686
71	655	4.04	54.38	12.27	0.2695
72	611	7.09	73.61	13.50	0.7047
73	698	7.01	61.89	13.54	0.5874
74	686	6.32	56.15	12.32	0.4373
75	663	6.94	48.77	12.61	0.4268
76	617	7.11	46.01	15.11	0.4941
77	637	7.33	61.12	11.85	0.5307
78	646	7.06	72.76	13.43	0.6898
79	643	6.99	62.53	12.73	0.5564
80	668	6.87	58.17	13.10	0.5235
81	638	7.28	61.70	12.59	0.5657
82	610	6.96	71.68	11.69	0.5832
83	683	4.24	61.96	12.48	0.3278
84	690	4.28	60.46	13.78	0.3565
85	678	8.71	65.04	12.99	0.7360
86	665	4.02	58.96	12.99	0.3079
87	652	7.06	58.36	11.55	0.4758
88	691	8.62	66.83	12.34	0.7111
89	649	4.07	73.64	14.03	0.4204

90	622	4.06	55.98	12.63	0.2870
91	700	7.35	57.88	13.15	0.5593
92	636	8.43	65.14	12.50	0.6862
93	664	7.03	49.59	13.39	0.4668
94	676	6.48	57.79	13.29	0.4977
95	666	6.85	53.49	13.65	0.5000
96	654	7.01	52.32	12.12	0.4444
97	605	4	60.78	12.92	0.3140
98	630	4.32	64.32	11.44	0.3180
99	603	6.83	59.25	11.56	0.4679
100	609	4.18	65.05	12.70	0.3453

Name of Division : Jaora-I

Challan No. : 09/291

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	840	9.13	51.06	14.51	0.6765
2	884	4.05	63.18	12.04	0.3082
3	880	6.81	64.51	13.22	0.5809
4	897	8.05	61.80	12.77	0.6351
5	855	4.57	58.58	13.59	0.3638
6	848	8.48	56.45	13.18	0.6309
7	826	7.73	66.54	12.46	0.6408
8	847	7.38	60.83	11.20	0.5026
9	857	8.91	58.68	14.16	0.7404
10	815	6.94	58.50	14.26	0.5788
11	878	8.41	60.71	12.90	0.6585
12	829	4.09	59.71	13.03	0.3182
13	823	4.22	53.21	12.54	0.2815
14	851	4.45	60.03	11.18	0.2986
15	833	4.36	52.05	12.28	0.2786
16	834	8.99	50.76	13.30	0.6068
17	898	4.07	57.21	12.36	0.2877
18	809	4.26	55.81	13.80	0.3280
19	892	4.15	62.12	11.77	0.3034
20	890	7.12	52.37	13.50	0.5034
21	867	4.38	58.04	12.49	0.3176
22	861	5.26	66.40	11.63	0.4061
23	891	7.89	56.89	13.32	0.5981
24	822	7.5	64.61	11.92	0.5775
25	803	7.43	50.23	11.65	0.4347
26	850	8.74	64.27	11.55	0.6485
27	860	4.57	64.38	12.75	0.3752
28	879	4.24	61.80	11.72	0.3070
29	843	4.37	61.47	12.79	0.3435
30	804	1.24	61.13	12.17	0.0923
31	819	4.31	60.56	14.76	0.3853
32	808	7.16	56.16	15.90	0.6394
33	841	4.27	55.39	12.19	0.2882
34	827	9.55	64.75	13.61	0.8414
35	864	7.56	56.51	13.96	0.5965
36	849	7	48.49	15.92	0.5404

37	875	8.27	58.21	16.37	0.7881
38	811	4.28	52.05	13.12	0.2923
39	832	8.24	46.12	14.92	0.5669
40	876	7.16	52.39	14.79	0.5549
41	852	7.28	58.99	13.87	0.5955
42	885	4.2	52.66	13.79	0.3049
43	859	3.49	62.70	14.43	0.3158
44	812	4.27	63.63	13.34	0.3625
45	838	4.62	54.59	14.43	0.3641
46	858	4.38	62.85	12.79	0.3522
47	854	7.61	49.95	14.03	0.5335
48	883	8.37	63.00	13.08	0.6897
49	813	7.23	55.33	12.25	0.4902
50	856	4.42	60.50	12.93	0.3456
51	872	3.76	55.64	14.11	0.2952
52	889	6.58	57.76	12.53	0.4764
53	821	7.22	57.35	14.09	0.5834
54	862	8.93	62.83	14.28	0.8010
55	818	3.69	59.16	14.10	0.3077
56	896	3.59	48.29	13.05	0.2262
57	877	8.41	62.91	14.42	0.7628
58	863	4.38	59.48	13.30	0.3465
59	871	6.84	58.60	13.91	0.5575
60	802	4.16	67.27	8.47	0.2371
61	894	6.51	64.64	12.39	0.5215
62	835	8.68	51.83	13.27	0.5972
63	844	4.64	47.53	13.53	0.2984
64	882	4.12	64.58	13.47	0.3584
65	820	4.27	60.46	14.75	0.3809
66	810	7.51	49.27	12.99	0.4806
67	828	4.36	61.30	12.99	0.3471
68	900	3.91	57.33	11.90	0.2667
69	837	4.47	49.77	12.52	0.2785
70	831	7.31	40.70	13.91	0.4137
71	807	7.17	58.52	13.38	0.5614
72	893	4	61.40	13.68	0.3360
73	881	3.97	58.78	13.97	0.3259
74	825	4.2	59.13	13.23	0.3284
75	869	4.4	58.18	11.43	0.2926
76	806	3.88	52.92	13.81	0.2836
77	895	3.95	55.66	14.14	0.3109
78	870	4.31	55.47	14.24	0.3405
79	814	7.23	56.39	14.36	0.5856
80	836	3.7	53.09	14.41	0.2831
81	886	8.46	61.86	13.01	0.6810
82	846	4.43	60.52	12.57	0.3371
83	817	7.3	63.26	13.44	0.6205
84	887	6.74	67.13	14.27	0.6457
85	816	4.32	60.05	13.39	0.3473
86	868	4.35	54.95	13.34	0.3189

87	899	6.5	59.81	12.02	0.4674
88	873	4.45	54.62	13.88	0.3373
89	805	3.16	60.33	10.81	0.2060
90	824	4.33	63.11	14.55	0.3975
91	845	6.94	57.32	13.50	0.5372
92	830	7.61	67.11	13.26	0.6773
93	842	7.28	54.01	14.20	0.5584
94	839	8.45	58.30	12.52	0.6168
95	865	7.12	53.44	13.60	0.5176
96	853	7.57	61.41	12.54	0.5829
97	888	5.95	56.76	12.07	0.4076
98	801	8.52	68.22	13.59	0.7898
99	866	7.2	56.17	13.44	0.5436
100	874	8.15	62.54	12.90	0.6577

Date: 14.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 06/229**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	578	7.27	52.18	12.38	0.4696
2	509	4.11	57.48	14.02	0.3313
3	599	6.66	47.00	12.45	0.3896
4	567	6.54	42.46	16.58	0.4604
5	525	3.14	51.00	14.41	0.2308
6	526	3.99	54.30	12.89	0.2793
7	583	7.08	49.83	15.99	0.5643
8	532	4.21	53.84	12.72	0.2884
9	517	6.56	56.20	15.23	0.5615
10	556	4.39	53.59	13.34	0.3139
11	531	7.1	57.25	12.45	0.5062
12	549	3.99	63.30	12.69	0.3204
13	516	7.14	58.24	12.55	0.5219
14	576	7.34	55.69	12.10	0.4947
15	557	4.13	51.64	13.40	0.2858
16	533	8.24	58.44	11.24	0.5414
17	594	2.86	48.93	13.30	0.1862
18	507	7.24	59.90	11.82	0.5126
19	504	4.45	53.14	13.49	0.3191
20	591	6.73	54.57	14.07	0.5169
21	508	8.4	61.60	13.59	0.7031
22	544	8.53	64.17	13.06	0.7148
23	551	4.2	63.22	12.97	0.3444
24	582	8.48	63.44	11.41	0.6140
25	590	3.41	57.95	13.60	0.2687
26	565	4.32	61.04	12.73	0.3357
27	529	8.18	59.60	13.07	0.6372
28	512	7.15	62.67	12.56	0.5627
29	580	7.46	56.05	12.36	0.5170
30	560	8.06	52.79	13.83	0.5884
31	596	7.63	59.92	12.70	0.5806
32	522	6.31	56.73	12.23	0.4379
33	575	8.46	63.18	13.93	0.7445
34	562	8.55	55.89	14.30	0.6831
35	542	6.97	66.45	11.59	0.5367
36	572	7.01	64.92	12.62	0.5741
37	519	4.41	62.21	12.31	0.3378
38	503	8.17	62.71	10.78	0.5523
39	540	8.3	64.84	13.03	0.7013
40	550	7.78	65.68	13.46	0.6878
41	566	4.27	58.26	12.55	0.3121
42	579	8.38	64.15	12.17	0.6545

43	559	7.27	57.89	13.94	0.5867
44	552	7.18	70.88	12.99	0.6613
45	523	3.11	54.35	14.44	0.2441
46	568	8.35	58.65	12.58	0.6162
47	585	4.22	57.40	13.21	0.3199
48	600	6.65	56.67	13.27	0.5001
49	581	4.04	60.47	12.92	0.3155
50	543	6.97	60.22	13.23	0.5555
51	521	7.01	44.96	15.32	0.4830
52	589	7.15	37.53	16.89	0.4533
53	598	4.2	55.77	12.57	0.2944
54	564	8.44	54.89	13.99	0.6482
55	571	8.91	55.99	11.34	0.5658
56	510	8.53	63.27	14.16	0.7643
57	524	4.15	54.73	11.68	0.2652
58	527	8.17	57.14	12.71	0.5931
59	514	8.58	60.09	13.05	0.6727
60	569	4.14	53.80	12.34	0.2749
61	563	8.22	55.97	12.72	0.5853
62	515	4.25	64.07	11.53	0.3141
63	511	4.27	61.54	13.31	0.3497
64	587	3.89	53.88	14.48	0.3034
65	536	4.43	62.37	12.43	0.3433
66	558	8.43	58.24	12.89	0.6331
67	520	4.23	56.73	13.66	0.3278
68	518	7.13	59.65	13.11	0.5576
69	597	6.8	55.47	12.75	0.4808
70	555	8.58	55.60	13.02	0.6212
71	577	8.26	49.98	14.19	0.5856
72	586	8.16	63.98	12.43	0.6487
73	595	3.27	48.09	14.14	0.2224
74	528	6.66	55.31	13.32	0.4908
75	541	7.15	57.26	13.80	0.5648
76	573	4.21	61.90	12.21	0.3183
77	538	6.28	61.30	12.38	0.4767
78	505	7.19	61.24	13.18	0.5802
79	574	8.63	60.10	12.38	0.6421
80	506	7.24	60.66	12.38	0.5437
81	535	8.12	59.59	13.81	0.6683
82	502	7.06	60.69	11.81	0.5062
83	530	3.95	56.57	13.08	0.2923
84	554	8	67.34	12.64	0.6808
85	561	6.95	55.76	13.70	0.5310
86	513	8.69	69.39	11.00	0.6630
87	546	8.05	68.05	12.20	0.6682
88	588	4.35	49.53	11.33	0.2440
89	593	3.51	59.04	13.26	0.2748

90	570	8.01	61.16	13.26	0.6496
91	553	6.64	67.70	10.95	0.4920
92	548	7.22	66.72	12.05	0.5805
93	547	4.7	69.53	11.42	0.3732
94	534	7.23	63.28	12.34	0.5647
95	539	7.18	58.14	11.06	0.4617
96	537	6.96	64.80	14.10	0.6361
97	584	4.29	63.70	12.98	0.3548
98	501	4.25	48.55	14.91	0.3077
99	592	6.57	47.09	12.34	0.3817
100	545	3.57	66.66	13.31	0.3167

Date: 12.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 01/164**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	9	7.16	51.12	13.11	0.4797
2	39	7.32	38.30	13.99	0.3924
3	51	4.48	55.73	11.68	0.2916
4	66	9.17	60.31	14.13	0.7813
5	61	3.95	60.92	13.64	0.3282
6	84	7.07	58.21	14.00	0.5762
7	72	7.38	58.13	14.52	0.6229
8	52	8.8	62.94	14.35	0.7946
9	60	7.01	54.11	15.39	0.5839
10	75	7.1	55.03	14.01	0.5474
11	21	8.68	51.22	12.10	0.5382
12	3	7.26	51.69	12.32	0.4625
13	12	7.49	57.60	11.89	0.5131
14	15	8.45	43.60	13.94	0.5138
15	34	8.74	62.16	12.18	0.6616
16	64	6.99	54.76	13.26	0.5075
17	67	8.45	52.84	13.49	0.6025
18	26	8.69	59.97	12.14	0.6326
19	31	4.36	61.52	11.70	0.3139
20	50	7.34	55.24	12.44	0.5043
21	41	8.29	58.92	12.59	0.6151
22	53	7.31	66.66	13.98	0.6813
23	17	3.6	41.58	12.67	0.1897
24	18	4.58	53.46	13.13	0.3215
25	98	2.59	38.17	15.38	0.1520
26	79	7.26	58.03	15.06	0.6345
27	69	4.48	58.29	14.12	0.3687
28	86	4.03	56.69	13.74	0.3139
29	38	8.41	46.33	9.76	0.3801
30	87	7.38	52.87	13.75	0.5365
31	23	4.37	54.83	14.55	0.3487
32	42	7.12	49.17	13.54	0.4742
33	20	4.42	55.91	13.27	0.3280
34	54	9.22	64.72	13.43	0.8012
35	43	7.66	58.57	13.68	0.6136
36	29	9.05	57.57	13.65	0.7113
37	73	7.44	47.33	15.28	0.5379
38	80	7.45	57.73	14.24	0.6124
39	22	4.49	51.90	13.35	0.3112
40	25	4.23	53.96	14.77	0.3371
41	48	9.15	58.41	13.64	0.7293
42	91	4.14	55.58	12.68	0.2919

43	14	8.73	64.13	12.13	0.6792
44	92	7.75	59.12	14.45	0.6618
45	78	8.27	54.46	12.61	0.5681
46	13	7.47	59.11	11.45	0.5057
47	97	4.29	56.25	12.71	0.3067
48	45	8.71	57.78	14.05	0.7073
49	65	8.9	58.51	15.54	0.8090
50	100	8.3	52.00	12.83	0.5536
51	83	3.5	56.76	14.45	0.2870
52	27	8.42	55.17	12.04	0.5591
53	4	7.41	64.04	11.74	0.5572
54	32	8.89	59.50	10.79	0.5707
55	90	4.04	49.61	14.07	0.2820
56	85	7.41	56.01	13.89	0.5765
57	77	4.47	57.35	12.12	0.3107
58	28	4.2	52.60	12.05	0.2663
59	2	7.16	60.53	13.65	0.5914
60	95	7.34	46.30	12.89	0.4382
61	10	7.22	46.81	12.99	0.4390
62	74	7.39	51.66	14.13	0.5395
63	94	8.73	51.14	13.20	0.5893
64	40	3.72	36.25	14.92	0.2013
65	19	8.91	58.98	12.44	0.6540
66	35	8.78	61.21	12.64	0.6796
67	37	8.97	64.37	11.37	0.6566
68	59	4.14	62.58	11.33	0.2935
69	47	8.85	60.93	12.18	0.6567
70	46	3.52	57.19	13.34	0.2686
71	89	7.16	62.04	14.85	0.6594
72	6	3.78	59.62	14.49	0.3266
73	1	8.61	62.32	12.23	0.6561
74	56	8.96	68.46	14.08	0.8637
75	88	7.38	59.91	12.45	0.5505
76	24	7.44	63.32	11.47	0.5401
77	68	7.2	59.43	14.18	0.6070
78	16	7.58	55.29	13.02	0.5458
79	30	7.48	60.35	13.60	0.6141
80	81	8.85	60.49	12.76	0.6832
81	82	7.06	63.12	14.27	0.6361
82	49	7.18	61.16	14.85	0.6519
83	93	8.59	60.84	14.83	0.7748
84	63	8	51.26	15.12	0.6200
85	76	8.45	51.75	14.92	0.6523
86	71	6.51	51.88	14.98	0.5058
87	11	7.39	42.95	13.78	0.4375
88	62	3.39	58.86	14.31	0.2854
89	70	6.95	53.96	14.79	0.5546

90	7	4.72	46.00	13.80	0.2997
91	44	7.34	52.74	12.84	0.4969
92	36	8.81	58.39	11.90	0.6123
93	96	7.46	43.73	13.19	0.4304
94	58	4.15	52.77	9.87	0.2162
95	55	7.19	65.48	14.45	0.6802
96	57	4.29	51.77	14.78	0.3282
97	8	6.05	44.09	13.40	0.3576
98	99	8.34	44.20	14.23	0.5246
99	5	8.52	61.53	15.13	0.7932
100	33	7.59	57.16	12.32	0.5343

Name of Division : Jaora-I

Challan No. : 05/228

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	426	6.81	59.76	13.24	0.5387
2	473	4.16	58.77	12.56	0.3070
3	467	3.72	63.89	12.13	0.2883
4	494	8.48	61.46	12.64	0.6589
5	414	4.44	54.14	12.10	0.2908
6	432	4.24	45.78	16.78	0.3256
7	448	7.14	61.89	13.93	0.6155
8	466	7.02	65.81	12.60	0.5820
9	430	4.17	61.39	14.79	0.3786
10	413	4.1	54.85	13.95	0.3136
11	478	8.29	63.78	12.90	0.6823
12	479	3.21	63.76	13.74	0.2812
13	441	7.46	60.85	13.15	0.5968
14	422	4.26	64.59	12.94	0.3561
15	417	7	63.06	13.86	0.6118
16	485	8.37	66.53	12.27	0.6830
17	427	4.36	63.17	14.26	0.3928
18	488	4.45	64.49	12.11	0.3475
19	440	8.39	61.52	14.27	0.7366
20	436	8.53	54.48	13.27	0.6167
21	453	7.49	56.83	13.48	0.5737
22	464	4.33	56.36	12.74	0.3109
23	471	7.12	53.02	13.07	0.4934
24	496	8.52	54.87	10.64	0.4976
25	465	7.06	57.67	12.74	0.5189
26	420	4.21	58.80	13.78	0.3410
27	472	7.44	54.88	13.48	0.5506
28	439	4.11	56.86	15.07	0.3522
29	459	8.01	57.61	13.80	0.6368
30	460	7.15	58.40	10.84	0.4526
31	434	4.35	61.64	14.58	0.3911
32	450	7.27	58.95	12.93	0.5540
33	468	7.08	59.77	12.80	0.5416
34	409	4.17	58.21	13.74	0.3336
35	401	4.5	64.07	12.55	0.3618
36	431	4.33	62.55	12.74	0.3451

37	404	7.15	55.91	13.40	0.5355
38	444	7.37	64.68	15.43	0.7355
39	449	4.2	58.57	14.68	0.3612
40	446	8.88	58.91	15.19	0.7948
41	415	4.53	60.82	11.30	0.3112
42	452	6.98	58.65	14.53	0.5947
43	481	7.15	60.97	11.68	0.5091
44	474	4.18	53.69	12.42	0.2788
45	407	4.37	52.07	14.63	0.3330
46	421	4.33	68.21	12.15	0.3590
47	458	7.36	50.85	12.04	0.4504
48	408	4.4	61.35	14.05	0.3793
49	406	4.33	59.49	13.57	0.3494
50	443	7.38	56.21	15.05	0.6243
51	402	7.06	62.99	13.68	0.6086
52	416	4.29	60.26	12.99	0.3359
53	500	4.33	57.41	14.02	0.3486
54	470	7.32	58.41	11.90	0.5087
55	433	8.84	58.52	14.56	0.7532
56	429	7.01	62.10	13.25	0.5769
57	463	4.25	59.19	12.32	0.3098
58	425	4.68	58.26	13.56	0.3697
59	455	7.17	65.74	14.13	0.6661
60	451	6.85	54.77	15.74	0.5905
61	457	4.14	59.52	11.14	0.2745
62	491	4.53	60.29	13.42	0.3665
63	499	4.21	59.98	11.32	0.2859
64	475	4.29	64.74	11.92	0.3312
65	437	7.4	64.30	13.03	0.6201
66	454	7.41	63.45	10.92	0.5135
67	497	7.29	57.04	12.90	0.5365
68	456	4.44	67.38	12.39	0.3707
69	438	7.29	54.57	13.95	0.5548
70	410	4.2	64.52	13.28	0.3599
71	445	6.99	61.92	14.28	0.6179
72	461	7.14	56.57	13.19	0.5326
73	419	4.34	64.17	11.27	0.3138
74	418	4.38	61.01	13.29	0.3552
75	484	4.51	70.42	11.35	0.3603
76	423	4.18	63.03	12.93	0.3407
77	405	4.44	57.07	13.93	0.3530
78	477	7.3	62.30	13.31	0.6052
79	493	4.42	57.62	13.45	0.3425
80	462	4.26	58.33	12.84	0.3191
81	476	6.77	61.55	13.50	0.5626
82	435	7.14	62.91	14.47	0.6497
83	492	4.18	50.24	14.23	0.2989
84	486	4.29	54.49	13.43	0.3140
85	482	8.47	64.96	11.71	0.6446
86	469	8.4	62.21	13.78	0.7199

87	442	4.24	44.55	15.56	0.2938
88	490	4.09	60.85	13.76	0.3423
89	403	4.29	64.76	13.79	0.3831
90	480	8.49	62.32	12.61	0.6673
91	428	4.3	59.48	11.95	0.3057
92	487	4.33	62.34	13.28	0.3585
93	498	4.31	56.61	12.70	0.3099
94	489	7.15	54.34	13.47	0.5234
95	411	7.23	55.67	13.04	0.5249
96	424	4.28	62.06	13.13	0.3488
97	412	4.36	59.57	12.91	0.3353
98	483	7.13	60.47	12.60	0.5433
99	447	7.15	55.05	14.39	0.5663
100	495	4.31	51.39	13.15	0.2914

Date: 09.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 03/166**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	228	6.97	63.32	12.37	0.5458
2	224	6.97	51.95	13.11	0.4747
3	204	7.12	60.18	12.06	0.5169
4	246	7.26	64.69	11.75	0.5518
5	290	4.64	51.52	13.08	0.3127
6	297	4.63	61.57	11.17	0.3185
7	238	4.13	65.33	12.38	0.3341
8	213	4.25	57.52	12.88	0.3149
9	287	7.66	51.19	14.50	0.5684
10	293	4.64	53.67	13.51	0.3364
11	277	4.39	61.87	13.67	0.3714
12	284	4.71	68.89	11.98	0.3886
13	285	4.59	55.17	12.51	0.3167
14	214	8.39	62.47	13.56	0.7106
15	271	8.74	59.04	12.20	0.6293
16	267	7.55	55.63	12.30	0.5164
17	245	6.9	66.15	13.14	0.5996
18	274	8.97	59.10	13.52	0.7167
19	272	7.47	64.58	12.51	0.6036
20	280	4.78	63.92	12.84	0.3924
21	259	7.22	60.48	13.08	0.5711
22	288	7.66	56.47	13.23	0.5722
23	211	7.19	62.50	11.44	0.5141
24	212	3.81	56.38	12.13	0.2606
25	254	7.45	53.86	12.57	0.5044
26	202	6.97	63.51	13.16	0.5827
27	251	7.51	56.96	11.94	0.5107
28	296	4.4	49.19	13.36	0.2891
29	205	6.91	62.77	14.08	0.6108
30	231	8.5	57.70	13.52	0.6630
31	269	8.75	55.38	11.29	0.5469
32	262	4.66	56.56	12.20	0.3215
33	292	7.42	60.28	12.81	0.5728
34	286	7.41	45.74	14.80	0.5017
35	210	6.98	59.33	12.46	0.5158
36	235	6.88	65.22	11.90	0.5339
37	268	4.44	56.37	11.18	0.2797
38	236	4.04	64.41	13.46	0.3503
39	261	7.63	60.91	11.54	0.5364
40	206	4.17	59.91	12.65	0.3161
41	203	7.97	61.45	13.03	0.6384
42	295	4.58	56.90	12.69	0.3307

43	270	9.07	57.76	12.85	0.6730
44	252	9.06	61.35	11.95	0.6641
45	201	4.37	64.32	12.52	0.3518
46	215	4.23	57.33	14.88	0.3608
47	227	7.04	59.47	12.68	0.5308
48	229	8.5	56.17	13.80	0.6587
49	217	6.89	58.00	13.29	0.5312
50	222	8.59	61.46	14.30	0.7551
51	279	7.62	58.00	13.48	0.5959
52	294	4.31	54.09	14.48	0.3375
53	241	6.54	57.93	14.14	0.5356
54	249	7.53	53.64	12.71	0.5135
55	256	8.9	55.39	13.49	0.6648
56	218	7.09	55.23	12.86	0.5034
57	257	7.35	44.00	14.00	0.4528
58	278	4.36	63.90	13.83	0.3854
59	221	8.51	59.76	12.20	0.6204
60	273	7.74	63.09	11.21	0.5472
61	299	3.63	57.07	12.97	0.2686
62	208	3.65	57.43	13.09	0.2745
63	248	8.65	53.88	13.68	0.6375
64	244	8.55	61.55	13.92	0.7327
65	263	7.55	58.51	13.19	0.5829
66	243	3.52	66.21	13.08	0.3048
67	237	6.82	64.19	12.60	0.5517
68	264	4.37	58.73	13.60	0.3492
69	240	7.25	64.76	12.62	0.5923
70	223	3.73	57.60	13.23	0.2842
71	275	9.23	63.11	13.53	0.7882
72	298	9	56.39	13.07	0.6633
73	265	7.55	58.01	12.93	0.5662
74	233	8.62	62.00	13.84	0.7396
75	242	4.14	64.32	13.48	0.3589
76	260	4.51	56.17	12.43	0.3148
77	255	7.38	56.51	12.85	0.5358
78	276	8.93	59.07	13.24	0.6983
79	226	6.84	61.04	13.61	0.5684
80	225	6.98	62.90	13.70	0.6017
81	282	4.71	58.79	12.01	0.3325
82	216	7.14	60.29	13.39	0.5762
83	230	6.97	60.18	12.93	0.5423
84	209	3.55	62.65	11.70	0.2602
85	258	8.89	57.70	12.79	0.6561
86	300	9.22	58.66	13.28	0.7182
87	232	4.23	58.46	12.56	0.3105
88	283	8.06	65.87	12.60	0.6690
89	219	4.29	58.36	13.06	0.3269

90	239	7.17	62.39	11.57	0.5177
91	291	4.61	50.37	12.39	0.2877
92	247	7.07	68.37	11.54	0.5578
93	266	4.5	55.37	13.47	0.3357
94	253	4.57	58.59	13.43	0.3597
95	220	6.98	61.32	11.81	0.5054
96	234	6.88	69.33	11.76	0.5607
97	281	4.52	70.27	10.67	0.3390
98	250	9.32	53.97	12.64	0.6356
99	207	6.98	55.87	12.40	0.4837
100	289	7.74	53.90	10.87	0.4536

Name of Division : Jaora-I

Challan No. : 08/290

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	707	4.37	56.78	13.46	0.3339
2	756	7.39	52.82	15.03	0.5868
3	787	3.41	46.36	15.36	0.2428
4	769	4.35	56.63	13.54	0.3336
5	782	7.1	45.48	14.62	0.4721
6	781	4.45	46.80	14.87	0.3097
7	714	4.66	56.41	13.19	0.3467
8	760	4.79	52.53	13.55	0.3410
9	730	4.3	54.73	14.11	0.3320
10	773	4.55	60.17	13.78	0.3772
11	764	4.52	54.25	13.51	0.3313
12	725	4.16	53.24	14.78	0.3274
13	785	4.62	58.62	12.44	0.3368
14	709	4.21	49.60	14.94	0.3120
15	780	7.78	38.74	15.93	0.4800
16	765	7.58	53.94	13.20	0.5397
17	732	4.09	61.70	14.25	0.3595
18	715	4.16	53.53	13.64	0.3037
19	701	7.15	64.50	13.60	0.6271
20	762	3.59	44.32	14.51	0.2308
21	717	7.09	54.30	14.20	0.5466
22	763	7.19	51.00	13.88	0.5091
23	757	4.26	56.37	13.78	0.3310
24	718	7.17	55.02	13.29	0.5241
25	797	3.71	55.10	12.81	0.2619
26	800	4.46	56.94	13.03	0.3309
27	727	4.57	58.79	11.23	0.3016
28	776	7.19	59.25	13.01	0.5543
29	758	8.84	54.95	13.23	0.6427
30	772	4.91	59.65	12.86	0.3766
31	743	4.51	64.18	13.54	0.3919
32	706	4.24	62.23	13.48	0.3557
33	703	3.11	64.82	11.20	0.2258

34	733	4.1	61.82	13.35	0.3382
35	789	3.71	58.02	12.70	0.2734
36	705	7.13	64.72	11.19	0.5162
37	771	7.15	55.97	14.38	0.5756
38	795	4.32	61.44	11.74	0.3115
39	784	7.65	48.07	14.25	0.5240
40	724	4.2	63.26	11.60	0.3083
41	796	3.4	64.73	13.73	0.3023
42	766	4.24	52.00	14.25	0.3142
43	741	4.21	66.38	14.66	0.4096
44	786	4.31	57.70	13.08	0.3254
45	711	3.67	49.76	14.65	0.2675
46	759	9.3	49.56	14.27	0.6575
47	747	6.53	60.71	13.75	0.5453
48	728	7.33	53.14	12.63	0.4918
49	798	3.35	41.41	13.79	0.1913
50	761	7.31	49.49	15.90	0.5753
51	774	4.32	62.46	14.62	0.3944
52	722	8.07	51.21	15.13	0.6254
53	754	4.38	46.73	15.75	0.3224
54	751	7.19	46.37	12.01	0.4005
55	738	7.02	56.90	15.15	0.6051
56	779	8.87	61.65	13.69	0.7486
57	731	8.49	53.76	13.24	0.6045
58	746	7.18	56.16	14.17	0.5715
59	742	6.98	59.98	14.67	0.6142
60	745	7.2	59.12	14.61	0.6221
61	734	6.95	59.03	13.28	0.5449
62	752	4.24	54.38	13.04	0.3006
63	712	8.73	52.82	15.83	0.7298
64	739	7.57	61.62	13.19	0.6154
65	792	7.42	51.01	13.06	0.4942
66	750	4.12	63.33	13.23	0.3453
67	719	3.64	53.35	13.35	0.2592
68	704	7.1	69.03	12.57	0.6163
69	790	5.27	55.83	14.37	0.4227
70	770	4.34	63.89	12.85	0.3563
71	775	4.38	59.58	14.13	0.3688
72	736	4.24	60.60	12.44	0.3197
73	791	3.72	53.79	12.47	0.2496
74	723	6.26	65.04	12.21	0.4970
75	793	3.65	53.34	12.82	0.2497
76	726	4.11	53.29	12.65	0.2770
77	794	3.75	56.83	12.48	0.2659
78	777	4.26	59.28	12.69	0.3204
79	783	4.37	49.66	12.95	0.2810
80	748	4.47	66.45	11.39	0.3384

81	735	7.07	58.61	12.52	0.5189
82	716	7.4	50.27	14.48	0.5387
83	767	4.46	53.98	13.30	0.3202
84	755	7.61	49.55	14.23	0.5365
85	737	4.24	63.49	12.63	0.3400
86	778	4.43	67.47	13.29	0.3974
87	720	7.12	62.92	12.54	0.5618
88	768	7.48	51.95	13.42	0.5214
89	713	4.25	60.92	13.16	0.3408
90	799	3.38	50.90	14.52	0.2498
91	702	4.25	70.97	12.86	0.3880
92	710	4.29	55.99	13.23	0.3179
93	740	8.25	60.49	12.25	0.6113
94	721	3.93	60.03	12.01	0.2834
95	788	3.5	45.07	14.82	0.2338
96	708	7.01	49.18	12.77	0.4402
97	753	7.27	57.88	12.34	0.5191
98	729	8.97	54.64	13.85	0.6790
99	744	7.47	63.68	12.09	0.5752
100	749	6.85	66.77	13.54	0.6192

Date: 25.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 17/399**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1692	4.52	58.28	11.74	0.3092
2	1685	4.17	60.35	12.51	0.3148
3	1698	7.16	62.80	12.68	0.5699
4	1614	8.22	70.90	11.13	0.6486
5	1678	7.26	61.68	11.06	0.4951
6	1699	4.37	49.88	14.39	0.3138
7	1642	3.8	57.78	13.57	0.2979
8	1674	4.36	47.18	14.90	0.3065
9	1645	4.04	71.22	12.68	0.3648
10	1694	6.96	56.25	14.86	0.5819
11	1643	8.54	60.15	12.98	0.6670
12	1635	7.2	55.14	12.59	0.4997
13	1632	4.39	60.43	13.01	0.3451
14	1633	7.41	59.04	13.52	0.5913
15	1672	4.45	56.67	13.69	0.3453
16	1625	3.66	62.76	12.14	0.2789
17	1618	4.13	69.54	11.30	0.3246
18	1696	4.27	55.04	11.50	0.2703
19	1611	7.15	70.65	12.12	0.6120
20	1647	3.46	47.97	14.91	0.2474
21	1616	3.95	68.79	12.75	0.3464
22	1648	3.47	47.96	14.43	0.2401
23	1626	7.44	61.43	13.09	0.5982
24	1661	4.13	63.03	12.49	0.3250
25	1668	6.99	69.72	12.99	0.6333
26	1627	3.58	65.19	12.64	0.2950
27	1628	7.63	54.84	12.33	0.5158
28	1684	1.87	63.82	13.51	0.1612
29	1629	3.56	56.78	13.26	0.2681
30	1657	3.96	58.72	12.30	0.2859
31	1654	7.27	69.31	11.37	0.5729
32	1644	3.96	58.56	12.86	0.2982
33	1665	7.03	69.52	11.72	0.5729
34	1680	4.71	59.71	15.24	0.4286
35	1677	7.61	59.30	12.75	0.5753
36	1619	7.12	75.57	13.10	0.7049
37	1650	3.53	55.92	13.95	0.2753
38	1670	6.81	67.14	14.33	0.6551
39	1622	3.36	69.96	10.65	0.2503
40	1634	7.14	57.27	12.59	0.5148
41	1638	3.58	61.19	14.22	0.3115
42	1613	3.77	70.09	12.91	0.3412

43	1617	3.4	69.13	12.05	0.2832
44	1621	4.29	71.87	13.20	0.4071
45	1639	8.86	56.19	13.38	0.6663
46	1615	3.44	66.90	13.32	0.3065
47	1664	4.32	63.88	11.26	0.3106
48	1671	4.66	55.96	14.87	0.3877
49	1658	4.26	49.86	15.14	0.3216
50	1606	4.7	63.53	12.26	0.3661
51	1693	6.12	67.54	12.24	0.5061
52	1631	4.44	58.34	12.80	0.3317
53	1605	4.27	62.63	12.85	0.3437
54	1669	3.97	60.06	13.45	0.3208
55	1604	4.3	63.49	12.96	0.3539
56	1686	4.02	60.79	11.99	0.2931
57	1609	3.97	63.80	13.34	0.3378
58	1690	3.69	56.12	13.72	0.2841
59	1695	4.52	52.43	12.47	0.2956
60	1637	7.42	69.33	12.20	0.6277
61	1636	4.47	64.50	13.09	0.3773
62	1623	4.33	73.10	12.27	0.3884
63	1656	4.25	64.00	12.72	0.3460
64	1624	3.41	74.41	12.07	0.3062
65	1666	3.89	66.36	12.93	0.3338
66	1687	4.1	61.36	13.95	0.3510
67	1697	4.2	55.00	14.20	0.3280
68	1620	4.31	76.04	12.66	0.4151
69	1676	4.28	61.45	12.06	0.3171
70	1608	4.28	66.17	12.42	0.3518
71	1679	4.53	54.94	14.14	0.3520
72	1649	8.72	55.25	12.71	0.6121
73	1667	3.86	63.58	12.06	0.2961
74	1700	4.24	51.95	14.23	0.3133
75	1603	7.27	66.76	13.08	0.6347
76	1646	4.36	64.08	13.36	0.3732
77	1602	7.15	58.30	13.36	0.5570
78	1682	4.05	37.73	14.07	0.2151
79	1653	4.13	51.65	12.02	0.2565
80	1663	4.15	64.59	12.97	0.3478
81	1675	8.66	53.04	13.10	0.6019
82	1652	4.22	52.00	12.52	0.2747
83	1688	4.36	65.57	12.08	0.3453
84	1601	4.28	62.06	12.52	0.3326
85	1630	4	65.81	12.13	0.3192
86	1610	3.61	66.73	11.61	0.2798
87	1651	3.71	57.87	13.84	0.2972
88	1683	3.72	58.12	11.77	0.2544
89	1662	8.87	62.31	11.41	0.6307

90	1641	4.51	64.91	12.02	0.3518
91	1607	4.01	67.15	12.12	0.3264
92	1681	4.14	39.66	16.09	0.2641
93	1659	3.61	63.45	13.54	0.3101
94	1640	3.71	66.60	12.58	0.3109
95	1660	7.16	62.89	11.73	0.5284
96	1612	4.25	71.76	12.40	0.3783
97	1689	3.8	60.74	14.04	0.3241
98	1691	6.09	55.59	12.59	0.4263
99	1673	4.47	58.02	10.44	0.2709
100	1655	6.84	57.89	13.96	0.5527

Date: 23.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 12/357**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1137	8.03	62.92	12.46	0.6296
2	1190	4.15	59.59	13.21	0.3266
3	1102	4.47	66.02	14.19	0.4188
4	1174	4.01	58.40	15.68	0.3673
5	1143	4.25	56.19	12.55	0.2996
6	1110	7.43	60.66	13.90	0.6263
7	1157	4.61	70.54	13.81	0.4490
8	1181	4.17	61.70	14.72	0.3786
9	1164	7.2	63.00	12.43	0.5638
10	1127	4.16	68.70	13.78	0.3940
11	1142	4.43	59.02	11.78	0.3079
12	1112	4.31	60.72	13.57	0.3551
13	1167	4.48	59.17	12.07	0.3199
14	1116	4.42	64.35	11.97	0.3403
15	1121	7.16	64.89	13.44	0.6244
16	1119	7.38	58.09	14.41	0.6177
17	1180	7.12	66.94	12.34	0.5881
18	1187	7.1	68.41	13.46	0.6539
19	1149	3.73	57.34	15.66	0.3350
20	1175	4.14	59.85	16.31	0.4041
21	1160	7.16	48.14	16.54	0.5699
22	1161	7.39	48.69	13.14	0.4730
23	1153	3.78	63.75	12.30	0.2964
24	1129	4.15	72.95	11.80	0.3573
25	1104	4.69	63.92	12.06	0.3616
26	1101	4.26	64.87	12.59	0.3480
27	1177	4.13	66.90	14.10	0.3895
28	1144	4.44	57.17	14.34	0.3641
29	1173	4.03	65.06	13.71	0.3595
30	1106	4.2	60.67	12.54	0.3196
31	1118	7.05	57.75	13.39	0.5450
32	1176	6.82	54.92	13.69	0.5129
33	1115	4.49	59.34	13.30	0.3543
34	1103	4.63	57.09	13.91	0.3676
35	1147	3.96	59.75	13.62	0.3223
36	1198	4.29	54.26	14.17	0.3299
37	1111	3.82	48.22	14.93	0.2750
38	1192	6.24	35.88	17.89	0.4006
39	1109	4.69	57.24	13.85	0.3719
40	1191	7.42	58.61	13.80	0.6003
41	1146	3.97	59.38	13.34	0.3144
42	1151	4.4	51.92	14.58	0.3331

43	1162	4.43	56.73	13.24	0.3327
44	1124	7.07	64.57	13.13	0.5995
45	1126	7.63	63.91	13.10	0.6386
46	1105	8.31	51.25	12.96	0.5518
47	1156	4.55	58.25	14.52	0.3849
48	1179	4.14	61.19	13.40	0.3395
49	1188	7.24	60.34	14.47	0.6321
50	1158	4.11	68.62	13.48	0.3802
51	1138	4.25	57.19	13.71	0.3332
52	1165	3.5	53.98	13.75	0.2597
53	1159	3.85	67.21	13.39	0.3465
54	1123	4.22	62.85	13.19	0.3498
55	1132	4.19	68.53	12.20	0.3503
56	1166	3.98	61.44	12.74	0.3116
57	1108	3.57	61.62	11.54	0.2538
58	1130	6.84	55.73	14.44	0.5506
59	1148	4.46	61.46	13.41	0.3675
60	1183	4.33	58.90	13.72	0.3499
61	1141	3.56	53.66	12.75	0.2435
62	1168	4.26	64.97	12.85	0.3557
63	1189	8.86	71.65	12.09	0.7673
64	1200	7.12	59.03	13.62	0.5724
65	1184	7.09	65.39	13.26	0.6147
66	1171	4.4	64.01	11.86	0.3340
67	1140	7.37	66.42	9.91	0.4849
68	1136	4.31	49.22	14.79	0.3138
69	1107	7.55	57.32	12.14	0.5255
70	1113	3.37	56.45	13.60	0.2588
71	1152	3.78	57.53	12.71	0.2763
72	1197	4.48	64.11	12.57	0.3611
73	1163	4.2	56.87	12.15	0.2902
74	1131	3.86	59.49	13.99	0.3212
75	1154	4.1	64.91	12.89	0.3432
76	1172	7.39	60.77	13.92	0.6252
77	1155	4.11	56.43	13.57	0.3148
78	1182	4.14	75.68	13.65	0.4277
79	1125	8.66	67.89	14.66	0.8617
80	1178	3.7	60.20	13.12	0.2923
81	1133	8.27	51.06	14.98	0.6327
82	1186	3.47	68.13	13.68	0.3234
83	1169	4.24	63.03	12.58	0.3362
84	1128	4.43	71.40	13.00	0.4111
85	1134	6.65	59.46	14.68	0.5805
86	1196	4.64	62.56	12.08	0.3508
87	1195	4.24	48.19	15.75	0.3218
88	1150	7.34	58.74	13.50	0.5821
89	1145	4.54	56.03	13.97	0.3555

90	1117	4.16	64.50	12.28	0.3295
91	1199	7.27	53.71	14.49	0.5656
92	1120	4.47	60.92	13.74	0.3741
93	1194	4.26	55.46	12.62	0.2982
94	1139	4.18	65.81	13.61	0.3745
95	1122	4.68	58.91	14.17	0.3908
96	1114	7.55	57.84	11.89	0.5194
97	1170	5.9	62.59	13.82	0.5104
98	1135	7.29	50.98	13.93	0.5176
99	1193	7.42	56.91	13.04	0.5506
100	1185	4.31	55.22	13.84	0.3293

Name of Division : Jaora-I

Challan No. : 19/401

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1813	4.22	73.25	13.42	0.4148
2	1823	4.08	58.46	14.18	0.3382
3	1821	3.39	57.53	13.75	0.2681
4	1822	3.85	53.50	14.62	0.3011
5	1827	3.5	61.21	11.89	0.2548
6	1809	3.6	66.17	12.77	0.3042
7	1811	4.42	74.25	13.06	0.4287
8	1804	3.29	54.54	15.60	0.2800
9	1816	3.51	58.96	11.50	0.2380
10	1826	7.21	41.65	14.31	0.4297
11	1829	3.68	53.36	15.72	0.3088
12	1831	3.69	57.39	14.64	0.3100
13	1828	3.65	46.43	14.93	0.2529
14	1803	3.59	55.62	13.68	0.2732
15	1825	3.57	55.01	10.23	0.2010
16	1819	4.47	53.03	13.86	0.3285
17	1818	3.6	52.72	14.38	0.2729
18	1806	3.48	59.34	13.55	0.2798
19	1824	3.56	53.54	11.19	0.2132
20	1807	4.2	52.26	13.62	0.2990
21	1808	4.14	54.62	14.50	0.3279
22	1830	3.54	50.21	14.74	0.2620
23	1815	3.68	59.12	13.45	0.2926
24	1802	3.33	66.34	15.19	0.3357
25	1801	3.53	61.12	15.15	0.3269
26	1812	4.24	70.22	12.35	0.3676
27	1817	3.58	59.48	15.05	0.3204
28	1810	4.31	71.32	10.08	0.3099
29	1805	3.8	60.32	13.86	0.3177
30	1814	3.48	51.63	13.33	0.2394
31	1820	3.57	58.93	13.41	0.2820

Date: 20.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना व ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 02/165**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	103	8.43	56.88	11.87	0.5690
2	133	7.41	58.57	13.42	0.5824
3	122	8.53	45.36	14.44	0.5587
4	194	4.07	67.92	13.24	0.3659
5	109	6.86	56.63	13.01	0.5056
6	183	3.6	60.83	12.17	0.2664
7	162	7.48	52.39	13.99	0.5483
8	146	7.47	59.99	13.04	0.5842
9	124	8.55	53.30	12.89	0.5874
10	169	3.39	62.81	12.61	0.2685
11	129	7.44	55.78	13.62	0.5654
12	101	4.17	57.16	13.82	0.3294
13	158	7.16	56.42	13.29	0.5370
14	107	8.48	55.15	14.00	0.6547
15	161	8.73	57.27	13.20	0.6600
16	195	3.62	65.78	12.39	0.2950
17	134	7.06	56.23	14.07	0.5584
18	112	7.21	51.29	13.92	0.5148
19	111	7.43	55.58	13.03	0.5379
20	115	4.15	67.24	13.65	0.3810
21	140	4.18	52.82	13.71	0.3026
22	188	7.06	64.73	14.63	0.6686
23	167	4.3	64.97	12.67	0.3539
24	106	7.35	48.77	14.76	0.5292
25	173	8.57	64.95	14.01	0.7799
26	171	4.22	59.07	12.76	0.3182
27	174	7.2	59.97	14.09	0.6084
28	116	4.4	57.18	13.75	0.3458
29	193	4.09	62.44	12.52	0.3198
30	120	3.63	64.08	12.47	0.2900
31	170	7.23	63.21	12.89	0.5892
32	182	4.12	58.34	13.10	0.3148
33	142	8.6	55.75	12.86	0.6166
34	197	8.48	66.40	13.46	0.7581
35	121	4.36	50.20	15.42	0.3375
36	147	7.25	59.88	12.93	0.5612
37	180	8	58.86	13.00	0.6120
38	145	8.61	47.01	14.06	0.5691
39	114	3.18	58.51	13.45	0.2503
40	198	8.33	64.70	12.63	0.6806
41	196	4.19	64.51	13.67	0.3696
42	131	8.22	54.87	14.51	0.6543

43	189	4.25	68.32	12.13	0.3523
44	192	6.7	66.86	12.82	0.5742
45	137	3.72	65.69	14.10	0.3445
46	104	3.81	60.45	13.56	0.3124
47	175	4.16	60.83	13.73	0.3474
48	130	7.38	54.99	13.89	0.5638
49	168	4.16	57.86	13.05	0.3141
50	132	7.33	54.18	15.23	0.6047
51	117	7.21	63.39	12.76	0.5833
52	135	8.54	48.80	14.45	0.6021
53	154	8.64	58.12	13.83	0.6947
54	199	8.25	60.59	12.94	0.6468
55	125	7	57.08	13.96	0.5579
56	176	7.13	64.58	13.33	0.6139
57	144	8.6	53.61	14.23	0.6562
58	123	7.41	46.04	13.10	0.4468
59	164	6.68	60.47	14.21	0.5738
60	155	7.24	55.72	14.70	0.5930
61	126	7.33	63.39	13.60	0.6318
62	105	4.59	58.41	14.26	0.3823
63	108	4.12	53.65	14.63	0.3234
64	149	6.57	60.22	14.10	0.5578
65	151	8.82	60.07	13.55	0.7179
66	178	4.44	63.32	14.01	0.3938
67	119	7.21	59.81	13.84	0.5970
68	187	8.4	61.72	12.51	0.6485
69	118	7.15	69.02	13.63	0.6728
70	163	7.38	60.10	12.95	0.5742
71	177	4.05	58.25	13.15	0.3102
72	128	8.55	49.93	15.22	0.6498
73	152	7.52	57.44	13.61	0.5881
74	113	7.11	60.34	13.13	0.5631
75	184	8.05	59.71	12.90	0.6199
76	156	7.45	61.39	13.70	0.6265
77	159	7.32	64.02	12.71	0.5958
78	185	7.05	59.13	13.31	0.5548
79	166	6.76	54.83	14.12	0.5232
80	179	7.11	59.83	12.89	0.5482
81	172	6.95	59.70	12.93	0.5365
82	102	7.68	59.55	13.70	0.6267
83	191	7.29	66.08	12.32	0.5934
84	127	7.44	57.21	13.44	0.5721
85	157	3.8	63.86	12.12	0.2941
86	200	7.27	65.32	11.30	0.5365
87	141	3.79	50.23	14.00	0.2664
88	150	8.55	55.34	13.34	0.6310
89	138	7.23	57.60	13.14	0.5473

90	136	7.31	59.81	12.94	0.5658
91	143	8.94	57.82	12.90	0.6669
92	165	8.55	52.84	12.94	0.5848
93	139	4.35	62.62	13.13	0.3576
94	110	7.52	58.00	13.24	0.5775
95	160	7.39	59.44	13.44	0.5905
96	186	7.06	67.86	12.08	0.5789
97	148	7.24	62.10	13.45	0.6045
98	190	6.79	62.54	12.70	0.5391
99	153	7.44	55.18	13.39	0.5498
100	181	4.48	66.84	11.54	0.3454

Date: 19.07.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 04/227**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	370	6.85	60.25	15.82	0.6528
2	332	6.97	56.70	13.53	0.5346
3	311	4.47	60.58	12.58	0.3406
4	338	7.19	64.90	13.19	0.6155
5	313	4.56	55.70	13.27	0.3370
6	353	4.19	60.06	13.80	0.3474
7	328	8.33	61.53	13.81	0.7080
8	335	4.21	53.50	13.36	0.3010
9	380	8.97	47.26	15.28	0.6476
10	367	1.46	55.90	12.59	0.1028
11	327	7.26	50.30	13.88	0.5067
12	377	2.1	62.34	15.26	0.1997
13	342	6.68	65.17	13.18	0.5738
14	360	3.65	69.03	14.18	0.3573
15	321	4.41	65.34	12.46	0.3590
16	374	4.3	57.76	13.33	0.3311
17	329	7.33	55.35	13.15	0.5336
18	399	7.23	61.17	13.63	0.6030
19	391	8.5	54.02	14.27	0.6553
20	381	9.31	50.30	12.84	0.6014
21	347	7.02	57.60	13.16	0.5321
22	350	6.73	62.19	13.94	0.5835
23	344	7.32	62.79	13.17	0.6054
24	359	8.74	66.66	12.96	0.7551
25	355	7.16	65.05	14.27	0.6644
26	312	7.19	56.39	13.30	0.5393
27	389	8.95	48.26	14.57	0.6292
28	365	7.45	55.13	14.40	0.5915
29	364	5.91	42.41	15.87	0.3977
30	331	4.29	51.25	14.52	0.3192
31	385	7.83	51.32	14.87	0.5974
32	326	7.23	45.16	15.30	0.4996
33	304	7.52	61.74	12.94	0.6008
34	384	8.96	41.59	16.54	0.6164
35	319	7.58	62.34	13.43	0.6344
36	373	7.65	63.58	13.05	0.6350
37	345	8.66	58.75	13.70	0.6971
38	357	7.08	70.53	13.89	0.6938
39	368	3.57	59.31	13.13	0.2781
40	315	4.34	60.81	13.01	0.3433
41	349	7.22	63.83	13.39	0.6173
42	393	8.46	48.95	15.57	0.6447

43	348	4.03	63.24	13.54	0.3450
44	362	7.21	66.46	13.77	0.6597
45	397	4.29	60.49	14.58	0.3784
46	333	3	54.24	13.79	0.2244
47	341	7.24	57.91	14.04	0.5886
48	302	7.59	59.47	13.84	0.6247
49	318	4.59	59.87	13.26	0.3644
50	306	7.58	56.17	13.32	0.5670
51	387	5.04	43.02	16.20	0.3513
52	358	3.65	64.67	12.29	0.2902
53	369	4.19	69.17	13.71	0.3972
54	339	4.05	61.47	12.97	0.3228
55	395	4.23	49.34	14.71	0.3071
56	396	8.99	57.24	15.16	0.7803
57	307	4.64	62.90	13.18	0.3847
58	314	4.45	48.80	16.27	0.3533
59	310	7.5	57.16	12.89	0.5527
60	323	7.36	66.44	12.78	0.6249
61	320	7.61	60.31	11.52	0.5289
62	376	4.29	55.49	16.36	0.3895
63	334	4.24	52.47	15.38	0.3422
64	371	7.72	55.72	15.97	0.6871
65	301	7.62	53.39	15.32	0.6233
66	308	4.57	54.77	13.35	0.3341
67	375	3.7	59.75	13.36	0.2953
68	303	7.63	57.19	14.71	0.6417
69	325	4.3	47.93	14.46	0.2980
70	343	7.17	60.10	14.29	0.6159
71	324	4.58	69.54	12.40	0.3948
72	316	4.25	61.24	13.78	0.3587
73	372	4.63	65.96	14.40	0.4398
74	305	7.05	51.10	14.36	0.5175
75	363	6.99	59.55	14.01	0.5830
76	383	7.58	48.68	15.16	0.5594
77	356	8.4	64.22	13.39	0.7224
78	398	7.16	57.48	11.08	0.4561
79	351	7.15	54.73	14.07	0.5505
80	346	3.69	61.63	14.41	0.3277
81	322	7.76	63.61	11.88	0.5867
82	352	8.24	64.68	14.38	0.7663
83	400	4.21	60.10	13.18	0.3334
84	340	3.53	60.36	14.31	0.3050
85	366	1.43	50.28	13.48	0.0970
86	309	4.28	57.88	14.65	0.3629
87	390	8.83	51.72	16.51	0.7541
88	361	7.03	63.95	13.42	0.6032
89	337	6.98	59.01	13.54	0.5577

90	379	7.31	41.62	16.96	0.5161
91	354	6.63	67.46	14.01	0.6265
92	330	8.65	58.35	14.29	0.7214
93	336	6.93	58.98	14.26	0.5828
94	388	4.5	44.68	14.64	0.2943
95	378	7.2	47.86	15.44	0.5321
96	382	7.35	38.79	15.70	0.4476
97	386	6.64	44.92	15.43	0.4602
98	394	4.65	55.80	14.03	0.3641
99	317	7.58	66.42	12.78	0.6435
100	392	9.02	56.19	14.08	0.7135

Date: 13.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 11/356**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1035	6.95	72.99	10.70	0.5428
2	1030	4.27	69.42	12.24	0.3630
3	1024	7.05	69.17	10.06	0.4907
4	1078	8.57	62.88	12.05	0.6496
5	1087	4.17	66.35	11.00	0.3044
6	1007	6.86	60.82	12.58	0.5248
7	1098	7.33	63.31	13.74	0.6377
8	1055	4.27	68.94	11.94	0.3514
9	1039	7.07	65.64	11.99	0.5564
10	1003	6.91	70.71	11.53	0.5632
11	1099	4.35	63.81	13.59	0.3771
12	1073	7.39	64.29	11.88	0.5646
13	1031	4.16	70.53	11.84	0.3474
14	1045	6.83	64.70	12.75	0.5635
15	1006	6.89	67.26	11.79	0.5464
16	1019	6.35	65.29	12.45	0.5163
17	1054	6.56	70.34	13.01	0.6002
18	1057	7.14	67.50	11.90	0.5733
19	1086	3.46	62.77	14.29	0.3104
20	1042	7.01	65.84	12.29	0.5671
21	1096	3.59	55.09	16.30	0.3224
22	1084	4.28	61.48	14.07	0.3702
23	1011	6.47	64.92	12.29	0.5163
24	1025	3.49	65.91	12.26	0.2820
25	1067	6.69	65.23	13.35	0.5827
26	1051	6.69	69.41	11.47	0.5325
27	1052	6.95	59.05	12.50	0.5129
28	1014	4.1	68.84	10.05	0.2837
29	1017	6.99	63.16	11.45	0.5054
30	1018	7.12	62.67	12.67	0.5653
31	1050	6.65	70.45	11.31	0.5300
32	1081	8.83	65.72	13.02	0.7558
33	1062	4.07	61.27	12.83	0.3199
34	1013	7.16	65.70	12.33	0.5800
35	1072	4.29	64.28	12.07	0.3329
36	1080	6.84	62.21	14.53	0.6183
37	1097	4.49	59.19	14.99	0.3983
38	1090	3.72	50.77	14.58	0.2753
39	1056	4.14	71.48	12.24	0.3622
40	1079	7.37	66.63	13.84	0.6795
41	1041	4.09	70.10	12.52	0.3591
42	1077	7.16	61.14	13.25	0.5800

43	1083	7.34	65.89	13.72	0.6635
44	1082	4.45	71.71	13.81	0.4405
45	1033	4.18	70.64	12.33	0.3641
46	1066	4.21	73.14	11.81	0.3637
47	1069	8.93	58.87	14.22	0.7474
48	1023	7.28	68.25	12.91	0.6414
49	1100	7.45	61.69	13.57	0.6236
50	1044	4.13	65.79	12.74	0.3461
51	1028	7.27	72.86	12.13	0.6427
52	1020	4.12	63.02	13.12	0.3407
53	1068	4.47	66.00	13.74	0.4054
54	1026	4.2	74.18	11.77	0.3667
55	1029	4.19	72.39	12.14	0.3683
56	1008	3.83	56.28	14.18	0.3056
57	1058	4.21	76.64	11.85	0.3823
58	1001	5.85	65.69	14.37	0.5522
59	1071	7.25	63.96	13.90	0.6445
60	1060	7.01	62.94	14.30	0.6309
61	1074	4.2	46.19	16.95	0.3289
62	1095	4.08	69.29	14.13	0.3994
63	1049	7.14	63.44	12.89	0.5841
64	1070	3.9	54.90	13.06	0.2796
65	1002	7	63.94	12.56	0.5621
66	1046	4.1	60.42	14.30	0.3542
67	1076	4.49	58.03	16.30	0.4248
68	1027	4.21	60.85	14.13	0.3621
69	1061	3.45	61.03	13.81	0.2908
70	1065	6.86	59.45	14.95	0.6099
71	1038	8.82	53.76	15.68	0.7435
72	1059	6.73	57.98	15.90	0.6205
73	1088	4.38	59.78	16.46	0.4310
74	1053	4.11	63.82	13.65	0.3580
75	1093	6.95	46.97	17.78	0.5803
76	1032	4.19	70.49	12.09	0.3570
77	1009	4.25	57.75	13.70	0.3362
78	1064	4.11	67.18	12.53	0.3461
79	1043	4.15	60.51	13.42	0.3370
80	1092	4.34	51.10	15.11	0.3350
81	1040	6.57	68.64	9.57	0.4316
82	1021	4.37	62.90	9.44	0.2596
83	1091	4.27	60.37	12.59	0.3245
84	1047	7.19	67.51	9.38	0.4551
85	1036	4.14	61.22	10.63	0.2695
86	1015	7.69	63.50	8.68	0.4237
87	1063	6.94	68.54	9.61	0.4573
88	1048	4.13	69.11	8.36	0.2387
89	1010	7.57	70.57	9.31	0.4973

90	1089	4.4	48.04	12.84	0.2715
91	1037	6.81	71.49	9.65	0.4699
92	1005	4.11	65.13	10.10	0.2704
93	1094	7.13	69.47	11.10	0.5497
94	1004	7.03	55.84	11.89	0.4668
95	1022	4.27	64.46	10.63	0.2925
96	1034	6.95	78.08	6.63	0.3600
97	1085	4.21	71.34	8.02	0.2408
98	1075	9.52	57.00	12.12	0.6578
99	1012	3.39	69.93	11.68	0.2770
100	1016	4.05	67.91	10.94	0.3009

Date: 09.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Jaora-I****Challan No. : 18/400**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1758	3.52	61.98	13.33	0.2908
2	1701	4.2	54.38	14.12	0.3226
3	1731	7.31	70.88	11.54	0.5980
4	1798	3.47	56.94	15.00	0.2963
5	1739	6.53	67.02	12.85	0.5622
6	1729	4.12	71.78	13.42	0.3968
7	1769	7.48	65.86	12.82	0.6313
8	1705	7.04	61.23	12.62	0.5442
9	1712	7.1	59.62	13.27	0.5616
10	1728	3.53	73.62	11.79	0.3064
11	1766	4.35	63.87	13.23	0.3676
12	1713	4.4	67.02	12.52	0.3692
13	1725	4.1	71.69	12.54	0.3686
14	1770	3.53	70.63	12.39	0.3089
15	1746	4.25	60.31	12.97	0.3324
16	1764	4.5	66.33	12.47	0.3722
17	1741	3.5	66.78	11.62	0.2716
18	1762	4.17	65.96	12.98	0.3570
19	1715	4.22	70.36	13.02	0.3866
20	1744	4.21	63.07	12.80	0.3397
21	1763	4.08	70.91	13.65	0.3949
22	1768	7.03	63.27	14.21	0.6320
23	1714	6.98	60.17	13.53	0.5682
24	1795	4.49	61.20	12.81	0.3520
25	1799	4.47	64.53	12.07	0.3482
26	1776	4.48	49.39	14.27	0.3158
27	1748	4.16	58.94	13.44	0.3295
28	1732	8.35	71.69	11.44	0.6847
29	1796	7.17	55.87	14.00	0.5607
30	1779	4.12	60.57	11.84	0.2954
31	1782	4.04	59.73	12.44	0.3002
32	1792	1.62	52.77	14.06	0.1202
33	1788	3.44	60.39	12.87	0.2673
34	1721	4.18	68.51	12.95	0.3708
35	1791	3.45	50.04	13.79	0.2381
36	1794	8.65	53.40	14.91	0.6885
37	1784	4.25	48.87	14.43	0.2996
38	1710	6.88	59.77	12.38	0.5091
39	1800	3.4	61.31	14.97	0.3121
40	1708	4.25	57.71	15.23	0.3736
41	1707	4.28	61.26	14.30	0.3749
42	1702	4.32	62.29	13.55	0.3646

43	1781	4	71.66	12.13	0.3476
44	1773	7.21	76.70	11.90	0.6583
45	1749	7.06	66.58	13.67	0.6425
46	1783	6.02	58.65	12.69	0.4479
47	1719	4.17	68.42	11.65	0.3323
48	1717	7.44	62.59	12.33	0.5744
49	1754	6.78	61.37	12.22	0.5085
50	1759	4.41	61.91	13.25	0.3616
51	1750	4.43	63.81	11.61	0.3283
52	1704	4.29	58.92	14.95	0.3779
53	1753	4.19	64.53	12.44	0.3365
54	1755	4.15	60.47	12.95	0.3249
55	1727	4.3	64.61	12.03	0.3341
56	1767	7.18	65.65	11.50	0.5421
57	1787	3.31	57.54	14.01	0.2668
58	1747	4.22	56.50	14.53	0.3465
59	1751	4.23	62.37	13.58	0.3583
60	1789	3.45	62.88	12.80	0.2777
61	1774	4.27	67.89	12.42	0.3600
62	1765	4.15	62.56	13.35	0.3465
63	1706	3.6	64.57	12.34	0.2869
64	1726	4.41	61.63	13.81	0.3753
65	1742	3.98	65.64	13.07	0.3415
66	1777	3.86	60.52	11.58	0.2706
67	1761	4.51	59.16	13.46	0.3590
68	1711	7.06	55.73	15.22	0.5987
69	1780	4.11	65.91	12.17	0.3296
70	1771	4.56	68.94	12.91	0.4058
71	1757	4.3	56.27	12.99	0.3143
72	1785	3.46	53.49	14.69	0.2720
73	1740	3.59	63.03	12.61	0.2854
74	1743	6.57	58.99	12.41	0.4809
75	1736	4.2	60.18	12.79	0.3234
76	1724	4.17	69.51	12.42	0.3599
77	1718	4.38	61.68	12.99	0.3508
78	1733	4.2	57.41	14.56	0.3511
79	1797	4.07	62.40	13.03	0.3309
80	1709	4.16	58.39	13.74	0.3336
81	1738	3.64	66.48	13.52	0.3272
82	1734	4.41	59.29	12.45	0.3255
83	1793	7.16	51.00	14.73	0.5377
84	1720	4.27	60.54	13.02	0.3365
85	1760	4.38	61.18	13.99	0.3749
86	1778	4.87	61.58	11.95	0.3584
87	1716	7.59	65.05	12.68	0.6262
88	1723	7.18	66.70	11.59	0.5550
89	1745	4.35	58.00	13.76	0.3471

90	1752	7.3	67.09	12.49	0.6117
91	1775	3.99	61.25	14.02	0.3427
92	1722	4.33	67.85	12.32	0.3620
93	1735	6.18	61.99	12.65	0.4845
94	1730	4.25	62.90	12.46	0.3332
95	1703	4.14	63.37	12.21	0.3204
96	1737	4.22	64.28	12.79	0.3469
97	1786	6.8	62.77	12.46	0.5318
98	1790	3.05	43.38	16.55	0.2190
99	1756	4.07	61.11	13.09	0.3256
100	1772	7.19	69.40	12.38	0.6176

Date: 23.06.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।